


Mera Power Vote - a voter awareness campaign by Jagran.com, which created awareness among the voters about their rights and responsibilities related to voting.

The campaign provided the information about the needs and concerns of voters from various segments, namely **Women, General, Youth and Rural populace**

The objective of campaign was to **Drive Voting** by enabling the readers with right info through **Data Journalism**, and which can help them to **take a better voting decision**.



Campaign Creatives



इस बार वोट नहीं पावर वोट डालेंगे

मेरा
POWER
वोट


वो कहते हैं 'लोकतंत्र में जनता ही
राजा होती है'
ठीक है !!!


अबकी बार हम साबित करेंगे अपने पावर वोट से
आइए, अपने वोट को **POWER वोट** में बदलें
jagran.com के साथ।

For Advertising Queries
vishal.varma@jagrannewmedia.com | dinesh.joshi@jagrannewmedia.com

जगजन Josh Onlymyhealth पंजीकृत mid-day Her जगन

Campaign Creatives






इस बार वोट नहीं पावर वोट डालेंगे

वो कहते हैं 'हमारे गांवों
में भारत बसता है।'


ठीक है !!!

अबकी बार हम साबित करेंगे अपने पावर वोट
आइए, अपने वोट को **POWER वोट** में बदलें
jagran.com के साथ।




For Advertising Queries

vishal.varma@jagrannewmedia.com | anesh.joshi@jagrannewmedia.com



Campaign Creatives



इस बार वोट नहीं पावर वोट डालेंगे

कहा जाता है, 'जहाँ नारियों की पूजा होती है,
वहाँ देवताओं का वास होता है।'


ठीक है !!!

अबकी बार हम साबित करेंगे अपने पावर वोट
आइए, अपने वोट को **POWER वोट** में बदलें
jagran.com के साथ।




For Advertising Queries
vishalvarma@jagrannewmedia.com
dinesh.joshi@jagrannewmedia.com










Campaign Creatives



इस बार वोट नहीं पावर वोट डालेंगे











वो कहते हैं 'हमारे युवा ही
इस देश की ताकत हैं।'

ठीक है !!!

अबकी बार हम साबित करेंगे अपने पावर वोट
आइए, अपने वोट को **POWER वोट** में बदलें
jagran.com के साथ

For Advertising Queries
visalvama@jagrannewmedia.com
dinesh.joshi@jagrannewmedia.com



Campaign Creatives




लोकतंत्र में वोट ही है आपकी
असली ताकत
 और सोच-समझ कर किया गया वोट बन जाता है
‘पावर वोट’

हम सभी के लिए **पावर वोट** के हैं अलग-अलग मायने..



महिलाओं
 के लिए पावर वोट है
 सुरक्षा और सम्मान



हम सबके
 लिए पावर वोट है
 एक बेहतर और
 सशक्त देश



शुकाओं
 के लिए पावर वोट है
 बेहतर परियोजनाएँ और
 विकास



किसान
 के लिए पावर वोट है
 बेहतर सुविधाएँ और
 बढ़ते दाम

ELECTION 2019 से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें JAGRAN.COM



वृत्तांत चौपाल



वृत्तांत 360



ई-वोट



पावर वॉच

For Advertising Queries
yshah.vams@jagrannewmedia.com | dinesh.joshi@jagrannewmedia.com

Jagran New Media is now 38.1 Million users* and growing











Campaign Promotional Mails




Released on 18th Feb



Released on 19th Feb



Released on 20th Feb



Released on 21st Feb



Released on 22nd Feb

*In order to create maximum awareness and drive maximum user engagement, **Mera Power Vote** campaign was promoted through different mediums or channels:*

1. *Print ads*
 - *Campaign Launch*
 - *Election Content Promotion*
 - *Chunav 360 promotion*
 - *Result Day*
2. *Mailers*
 - *Trade Mailers*
 - *Regular Mailers*
 - *Customised Mailers*
3. *Videos*
4. *Social Media*
 - *Facebook*
5. *Web Banners*
 - *Exit Poll*
 - *Result Day*

Marketing Plan

Print Ads to
drive user
engagement:

Promotions on
Content created
during the
campaign

युवा वोटर क्या कहता है ?

हर जनम
हर
वोट
कुछ कहता है

जानें
अनुभा
मोहनी
के साथ

इलेक्शन कवरेज की स्पेशल ग्रांड रिपोर्ट
देखने के लिए लॉग ऑन करें
www.jagran.com/vdo

स्कैन करें

f /dainikjagran @JagranNews dainikjagrandigital

महिलाओं के लिए समान अधिकारों की बात

हर जनम
हर
वोट
कुछ कहता है

देखें Jagran.com की
स्पेशल कवरेज में

इलेक्शन कवरेज की स्पेशल ग्रांड रिपोर्ट
देखने के लिए लॉग ऑन करें
www.jagran.com/vdo

स्कैन करें

f /dainikjagran @JagranNews dainikjagrandigital

लोकसभा चुनाव 2019 में सोशल मीडिया क्यों है महत्वपूर्ण ?

हर जनम
हर
वोट
कुछ कहता है

जानें
अनुभा
मोहनी
के साथ

इलेक्शन कवरेज की स्पेशल ग्रांड रिपोर्ट
देखने के लिए लॉग ऑन करें
www.jagran.com/vdo

स्कैन करें

f /dainikjagran @JagranNews dainikjagrandigital

5 साल में बिहारी निर्मल हुई गंगा ?

हर जनम
हर
वोट
कुछ कहता है

देखें Jagran.com की
स्पेशल कवरेज में

इलेक्शन कवरेज की स्पेशल ग्रांड रिपोर्ट
देखने के लिए लॉग ऑन करें
www.jagran.com/vdo

स्कैन करें

f /dainikjagran @JagranNews dainikjagrandigital

बहराइच की महिलाएं मांगे शिक्षा और सुरक्षा

हर जनम
हर
वोट
कुछ कहता है

देखें Jagran.com की
स्पेशल कवरेज में

इलेक्शन कवरेज की स्पेशल ग्रांड रिपोर्ट
देखने के लिए लॉग ऑन करें
www.jagran.com/vdo

स्कैन करें

f /dainikjagran @JagranNews dainikjagrandigital

Election 2019 पर लोगों की प्रतिक्रियाएं

हर जनम
हर
वोट
कुछ कहता है

देखें Jagran.com की
स्पेशल कवरेज में

इलेक्शन कवरेज की स्पेशल ग्रांड रिपोर्ट
देखने के लिए लॉग ऑन करें
www.jagran.com/vdo

स्कैन करें

f /dainikjagran @JagranNews dainikjagrandigital

Published in Dainik Jagran (All Editions) from 28th Mar till 19th May

Regular and Customised Newsletters were mailed to the active database of Jagran.com



Mailers pushed daily on 0.5 mn database from 28th Mar till 23rd May

Special Videos
section was
created on
Jagran.com



ELECTIONS | Tue May 14 10:59:57 IST 2019

आधी आबादी | क्या महिलाएं इस चुनाव का रुख तय करेंगी ?

<https://bit.ly/31V3uJx>



ELECTIONS | Sat May 11 18:20:47 IST 2019

किसे मिलेगा जाटों का वोट? भाजपा, कांग्रेस या कोई और

<https://bit.ly/2Ft6mnk>



ELECTIONS | Tue May 07 10:00:56 IST 2019

देखिये सिवान राउंडअप अनुभा भोंसले के साथ

<https://bit.ly/2NdUTOJ>



ELECTIONS | Fri May 10 18:15:07 IST 2019

बोले रोहतक | क्या दीपेंद्र हुड्डा अपनी जीत दोहरा पाएंगे?

<https://bit.ly/31Rw3HC>



ELECTIONS | Sun May 05 17:45:32 IST 2019

बोले East दिल्ली: "केजरीवाल को अनुभव कम, लेकिन मौका देना चाहिए"

<https://bit.ly/2RtdqoH>



ELECTIONS | Thu Apr 11 17:57:56 IST 2019

पांच साल बाद नमामि गंगे कितना हुआ कामयाब? | Lok Sabha Election 2019

<https://bit.ly/31P8vmB>

Social Media : Campaign launch promotion on Jagran's Facebook page



<http://bit.ly/2XtQOK9>



<http://bit.ly/2ZOtyDV>



<http://bit.ly/2LI08JX>



<http://bit.ly/2FzxQaS>

Social Media : Promotion on Election Result Day

मेरा POWER वोट

लोकसभा चुनाव परिणाम 2019

सबसे सटीक विश्लेषण
Jagran.com पर मिलेगा राज्यवार, क्षेत्रवार और सीटवार नतीजों का सबसे सटीक विश्लेषण

चुनाव 2019 के परिणाम से जुड़ी हर खास खबर **Jagran.com** पर

जगरण

Dainik Jagran
Page Liked · 23 May

#May23WithJagran

लोकसभा चुनाव परिणाम 2019

चुनाव के महायज्ञ में आपने टी वोट की आहुति... See more

111 · 1 comment · 2 shares

Like · Comment · Share

Most relevant

Ranjeet Singh इतना स्वच्छा बच्चा है भाई ये रात दिन हाथ मांदा हाथ मांदा करने वाले मोखिया के दलान और सुनत जो रात दिन इटासियन को जलाना प्रश की ची कर नया करते थे पकटम के मारवा हो गया है क्या निकलेगे? इसके बाद ईटीएम पर रंडी रोते के लिए?

Write a comment

<http://bit.ly/2Ybz8Ab>

मेरा POWER वोट

लोकसभा चुनाव परिणाम 2019

23rd May
Jagran.com पर चुनाव 2019 के रिजल्ट की सबसे विस्तृत कवरेज

चुनाव 2019 के परिणाम से जुड़ी हर खास खबर **Jagran.com** पर

जगरण

Dainik Jagran
Page Liked · 23 May

#May23WithJagran

लोकसभा चुनाव परिणाम 2019

चुनाव 23 मई को शुरू हो रहा है...

111 · 2 comments · 1 share

Like · Comment · Share

Most relevant

Sh. Nisha
Lalita Tripathi Shrivastava
Like · Reply · Ret

Shreenu Patel Chitrapur
Like · Reply · Ret

"Not a member" is not allowed to see some comments. Please login or become a member.

Write a comment

<http://bit.ly/2xc3R4f>

मेरा POWER वोट

लोकसभा चुनाव परिणाम 2019

सबसे तेज | सबसे सटीक | सबसे विस्तृत

17 वीं लोकसभा चुनाव के नतीजे 23 मई को **Jagran.com** पर

जगरण

Dainik Jagran
Page Liked · 23 May

#May23WithJagran

लोकसभा चुनाव परिणाम 2019

चुनाव 23 मई को शुरू हो रहा है...

111 · 1 comment · 1 share

Like · Comment · Share

Most relevant

Mukesh Singh Gahamshah posted
Like · Photo · Ret

Jeorge Lucas MDD Katar
Like · Photo · Ret

Alpha Chaudhary MDD
Like · Photo · Ret

"Not a member" is not allowed to see some comments. Please login or become a member.

Write a comment

<http://bit.ly/2FuO58W>

Banners on Jagran.com site for Exit poll

 जागरण	<p>किसकी बनेगी सरकार?</p> <p>जानिए 19 मई शाम 6 बजे से एग्जिट पोल की विस्तृत कवरेज jagran.com पर</p>	<p>लोकसभा चुनाव परिणाम 2019</p>
 जागरण <p>लोकसभा चुनाव परिणाम 2019</p> <p>किसकी बनेगी सरकार?</p> <p>जानिए 19 मई शाम 6 बजे से एग्जिट पोल की विस्तृत कवरेज jagran.com पर</p>	 जागरण <p>लोकसभा चुनाव परिणाम 2019</p> <p>चुनाव के महायज्ञ में आपने दी वोट की आहुति</p> <p>अब जानिए किसकी बनेगी सरकार</p> <p>19 मई शाम 6 बजे से एग्जिट पोल की विस्तृत कवरेज jagran.com पर</p>  जागरण <p>लोकसभा चुनाव परिणाम 2019</p> <p>किसकी बनेगी सरकार?</p> <p>जानिए 19 मई शाम 6 बजे से एग्जिट पोल की विस्तृत कवरेज jagran.com पर</p>	 जागरण <p>लोकसभा चुनाव परिणाम 2019</p> <p>आपके पावर वोट के दम पर अब किसकी बनेगी सरकार</p> <p>जानिए 19 मई शाम 6 बजे से एग्जिट पोल की विस्तृत कवरेज jagran.com पर</p>

Banners on Jagran.com site for Result Day



जागरण

Jagran.com पर विभिन्न दलों के नेताओं का इंटरव्यू
जानिए जीत और हार की मायने 23rd May

लोकसभा चुनाव
परिणाम 2019



जागरण

लोकसभा चुनाव
परिणाम 2019

Jagran.com

पर मिलेगा
राज्यवार, क्षेत्रवार
और सीटवार
नतीजों का सबसे
सटीक विश्लेषण
23rd May



जागरण

लोकसभा चुनाव
परिणाम 2019

Jagran.com पर चुनाव 2019 के
रिजल्ट की सबसे विस्तृत
समीक्षा 23rd May



जागरण

लोकसभा चुनाव
परिणाम 2019

सबसे तेज | सबसे सटीक | सबसे विस्तृत
23 मई को Jagran.com पर



जागरण

लोकसभा चुनाव
परिणाम 2019

चुनाव 2019 के
परिणाम से जुड़ी
हर खास खबर
Jagran.com
पर



जागरण
jagran.com



Thank You